

Portions for pre board 1

## **ENGLISH**

### **EVERYTHING EXCEPT FOR THESE TOPICS**

#### **Deleted Topics –**

##### **Grammar**

- Use of Passive Voice
  - Clauses: Noun, Adverb Clauses of condition and time, Relative
  - Prepositions
  - FIRST FLIGHT –Literature
  - 1. How to Tell Wild Animals
  - 2. Trees
  - 3. Fog
  - 4. Mijbil the Otter
  - 5. For Anne Gregory
- ##### **FOOTPRINTS WITHOUT FEET**
- 1. The Midnight Visitor
  - 2. A Question of Trust
  - 3. The Book That Saved The Earth

#### **Hindi Portions**

##### **कविता - स्पर्श-**

- 1 साखी
- 2 मीराके मद
- 4 मनुष्यता
- 5 पर्वत प्रदेश में पावस
- 8 कर चले हम फिदा

##### **कहानी - स्पर्श-**

- 10 बड़े भाई साहब
- 12 तारा - वमीर कथा
- 15 अब कहाँ दूँ सरे के दुःख से दुःखी होने वाले
- 16 पतझर की टूटी पत्तियाँ - झेन की देन
- 17 करतूस

##### **कहानी - संचयन -**

- 1 हरिहर का क
- 2 सपनों के से दिन
- 3 टोपी शुक्ला

## व्याकरणखंड-

1पदबंध

2रचनाकेआधारपरवाक्यरूपांतरण

3 समास

4मुहावरे

## लेखन-

1अनुच्छेदलेखन

2औपचारिकपत्र

3सूचनालेखन

4विज्ञापनलेखन

5लघुकथालेखन

## अपठितगद्यांश-

\*\*\*\*\*

## MATHS

### EVERYTHING EXCEPT THE DELETED PARTS

## SCIENCE

Science

1. Chemical reactions and equations.

2. Acids, bases and salts.

3. Metals and non-metals.

4. Carbon and its compounds.

5. Periodic Classification of elements

6. Life processes

7. How do organisms Reproduce?

8. Heridity and Evolution

9. Light-Reflection and Refraction

10. Human eye and colourful world.

11. Electricity.

12. Magnetic effects of Electric Current.

Deleted portion has been communicated to the students already

### Deleted Portion (Theory)

● Under Unit I: Chemical Substances - Nature and Behaviour

o Metals and Non-metals: Basic Metallurgical processes; Corrosion and its prevention

o Carbon and its Compounds: Nomenclature of carbon compounds containing functional groups (halogens, alcohol, ketones, aldehydes, alkanes and alkynes), difference between saturated hydro carbons and unsaturated hydrocarbons.

Chemical properties of carbon compounds (combustion, oxidation, addition and

substitution reaction). Ethanol and Ethanoic acid (only properties and uses), soaps and detergents.

- Under Unit II: World of Living

- Control and co-ordination in animals and plants: Tropic movements in plants; Introduction of plant hormones; Control and co-ordination in animals: Nervous system; Voluntary, involuntary and reflex action; Chemical co-ordination: animal hormones.

- Heredity and Evolution: Basic concepts of evolution.

- Under Unit III: Natural Phenomena

- The Human Eye and the Colourful World: Functioning of a lens in human eye, defects of vision and their corrections, applications of spherical mirrors and lenses.

- Under Unit IV: Effects of Current

- Magnetic Effects of Electric Current: Electric Generator, Direct current. Alternating current: frequency of AC. Advantage of AC over DC. Domestic electric circuits.

- Under Unit V: Natural Resources

Sources of energy: Different forms of energy, conventional and non-conventional sources of energy: Fossil fuels, solar energy; biogas; wind, water and tidal energy; Nuclear energy. Renewable versus non-renewable sources of Energy

## **SOCIAL SCIENCE**

### **History-** (2 Chapters)

Nationalism In Europe

Nationalism In India (Map Work)

### **Geography**

Resource and Development

Agriculture Manufacturing

Industries

Lifelines of National Economy.

### **Map Work**

Water Resources - Dams in The Country Minerals –  
Energy Resources.

### **Democratic Politics** Powe

r Sharing Federalism

Political Parties

Outcomes Of Democracy

### **Understanding Economic Development (Economics)**

Development

Sectors of Indian Economy Money  
and Credit

Globalisation and The Indian Economy

### **COMPUTER**

1. Communications skills

2. Self management skills

3. Basic ICT skills
4. Entrepreneurial skills
5. Green Skills
6. Digital Documentation
7. Electronics spreadsheet
8. Database management system
9. Web Applications and Security